



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]
No. 75]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2007/फाल्गुन 2, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2007/PHALGUNA 2, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2007

सं. 12/2007-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 95(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76ग की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 की उपधारा-(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड के संतुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रिया) विनियम 2003 रद्द करती है जिसे अधिसूचना सं. 53/2003-सीमा शुल्क(गै.टै.) दिनांक 22 जुलाई, 2003 को अधिसूचित किया गया था और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-3 उपखण्ड (i) में सा.का.नि.सं. 571(अ) दिनांक 22 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जो ऐसे विखंडन के पूर्व की गई थी या जिनका किए जाने से लोप किया गया था।

[फा. सं. 305/2/2007-एफटीटी]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2007

No. 12/2007-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 95(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 157, read with sub-section (2) of section 76C of the Customs Act,

1962 (52 of 1962), the Board being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the Special Economic Zones (Customs Procedures) Regulations, 2003, notified vide notification No. 53/2003-Customs (N.T.), dated the 22nd July, 2003 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 571 (E), dated the 22nd July, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No. 305/2/2007-FTT]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2007

सं. 13/2007-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 96(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अध्याय- X के प्रावधानों के साथ पठित धारा 156 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2003 को निरस्त करती है, जिसे दिनांक 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क(गै.टै.), भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड-3 उपखण्ड (i) सा.का.नि.सं. 570 (अ) दिनांक 22 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जो ऐसे विखंडन के पूर्व की गई थी या जिनका किए जाने से लोप किया गया था।

[फा. सं. 305/2/2007-एफटीटी]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2007

No. 13/2007-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 96(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 156 read with provisions of Chapter XA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the Special Economic Zones Rules, 2003, notified vide notification No. 52/2003-Customs (N.T.), dated the 22nd July, 2003 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 570 (E), dated the 22nd July, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No. 305/2/2007-FTT]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2007

सं. 14/2007-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 97(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (1) में सा.का.नि. 934 (अ), दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 के जरिए प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 110/2003-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

(1) प्रथम पैरा में-

(क) खंड (i) से (iv) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

(i) अपर सीमा शुल्क आयुक्त, विशेष आर्थिक जोन अपर सीमा शुल्क आयुक्त होंगे;

(ii) संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त, विशेष आर्थिक जोन संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त होंगे ;

(iii) सीमा शुल्क उपायुक्त, विशेष आर्थिक जोन सीमा शुल्क उपायुक्त होंगे ;

(iv) सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, विशेष आर्थिक जोन सीमा शुल्क सहायक आयुक्त होंगे;

(v) मूल्यांकक, अधीक्षक (निवारक और आसूचना) परीक्षक एवं निवारक अधिकारी, विशेष आर्थिक जोन, सीमा शुल्क अधिकारी होंगे।"

(ख) द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

(2) दूसरे पैरा में " के खंड (i) से (iii) " शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

(3) व्याख्या के लिए निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

" व्याख्या- इस अधिसूचना के लिए " विशेष आर्थिक जोन " का अर्थ है विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत यथा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन "

[फा. सं. 305/2/2007-एफटीटी]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

नोट :— अधिसूचना सं. 110/2003-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में सा.का.नि. 934 (अ), दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 के जरिए प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2007

No. 14/2007-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 97(E).— In exercise of powers conferred by sub-section 1 of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of

Finance (Department of Revenue), number 110/2003-CUSTOMS(N.T.), dated the 8th December, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 934(E), dated the 8th December, 2003, namely:-

(1) .In the first paragraph, -

(a) for clauses (i) to (iv), the following clauses shall be substituted, namely:-

“ (i) Additional Commissioner of Customs, Special Economic Zone, to be the Additional Commissioner of Customs;

(ii) Joint Commissioner of Customs, Special Economic Zone, to be the Joint Commissioner of Customs;

(iii) Deputy Commissioner of Customs, Special Economic Zone, to be the Deputy Commissioner of Customs;

(iv) Assistant Commissioner of Customs, Special Economic Zone, to be the Assistant Commissioner of Customs;

(v) Appraiser, Superintendent (Preventive and Intelligence), Examiner and Preventive Officer, Special Economic Zone, to be officers of Customs.”.

(b) The second proviso shall be omitted.

(2). In the second paragraph, the words, brackets and figures “ clauses (i) to (iii) of ”, shall be omitted.

(3). For the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely: -

“ *Explanation.* - For the purpose of this notification, “ Special Economic Zone” means the Special Economic Zone as notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).”.

[F. No. 305/2/2007-FTT]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

Note:— The Notification No 110/2003-CUSTOMS (N.T) dated the 8th December, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 934(E), dated the 8th December, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2007

सं. 16/2007-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 98(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में अनिवार्य है, एतद्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना, जिसे नीचे सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है, को उक्त सारणी के कॉलम (3) में अधिसूचना के सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित अथवा पुनः संशोधित जैसा मामला हो, किया जाएगा।

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	113/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2003	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>(1) पैरा 1 में "विदेश व्यापार नीति" शब्दों की जगह "विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) तथा विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।</p> <p>(2) व्याख्या के लिए निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-</p> <p>"व्याख्या- इस अधिसूचना के लिए "विशेष आर्थिक जोन" का अर्थ विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत यथा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन है।"</p>
2.	45/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 16 मई, 2005	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>(i) "विदेश व्यापार नीति, 2004-2009" शब्दों और अंकों की जगह "विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;</p> <p>(ii) परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात:-</p> <p>"पुनः प्रावधान किया गया कि निम्नलिखित माल के लिए</p>

		<p>कोई ऐसी छूट लागू नहीं होगी, अर्थात:-</p> <p>(क) मदर बोर्ड को छोड़कर कम्प्यूटर के लिए माइक्रोप्रोसेसर;</p> <p>(ख) फ्लॉपी डिस्क ड्राइव;</p> <p>(ग) हार्ड डिस्क ड्राइव;</p> <p>(घ) सी डी रोम ड्राइव;</p> <p>(ङ) डी वी डी ड्राइव;</p> <p>(च) यू एस बी फ्लैस मेमोरी;</p> <p>(छ) कोम्बो ड्राइव;</p> <p>(ज) सेलुलर फोन तथा</p> <p>(झ) रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनल्स "</p> <p>(iii) व्याख्या में, " सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 76क " शब्दों, अंकों और कोष्ठक की जगह " विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 " शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p>
3.	20/2006-सीमा शुल्क-दिनांक 1 मार्च, 2006	उक्त अधिसूचना में सारणी में क्र.सं.7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 305/2/2007-एफटीटी]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

नोट :—अधिसूचना सं. 113/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2003 सा.का.नि.572 (अ), दिनांक 22 जुलाई, 2003 के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और इसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

- (1) सं. 129/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 14 अगस्त, 2003 { सा.का.नि. 669(अ), दिनांक 14 अगस्त, 2003 }
- (2) सं. 151/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 { सा.का.नि. 813(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 }
- (3) सं. 169/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 29 नवम्बर, 2003 { सा.का.नि. 916(अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2003 }
- (4) सं. 180/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 { सा.का.नि. 980(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 }
- (5) सं. 45/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 28 फरवरी, 2004 { सा.का.नि. 164(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2004 }

- (6) सं. 50/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2004 { सा.का.नि. 244(अ), दिनांक 31 मार्च, 2004 }
- (7) सं. 58/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2004 { सा.का.नि. 298(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2004 }
- (8) सं. 87/2004-सीमा शुल्क, दिनांक 6 सितम्बर, 2004 { सा.का.नि. 566(अ), दिनांक 6 सितम्बर, 2004 }
2. अधिसूचना सं. 45/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 16 मई, 2005 भारत के राजपत्र में { सा.का.नि. 318 (अ), दिनांक 16 मई, 2005 } के जरिए प्रकाशित की गई थी ।
3. अधिसूचना सं. 20/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 92 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2006 के जरिए प्रकाशित की गई थी और इसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-
- (1) सं. 24/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 6 मार्च, 2006 { सा.का.नि. 140(अ), दिनांक 6 मार्च, 2004 }
- (2) सं. 29/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 20 मार्च, 2006 { सा.का.नि. 170(अ), दिनांक 20 मार्च, 2006 }
- (3) सं. 79/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 8 अगस्त, 2006 { सा.का.नि. 467(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2006 }
- (4) सं. 139/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2006 { सा.का.नि. 800(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2006 }

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2007

No. 16/2007-CUSTOMS

G.S.R. 98(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table given below shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sr. No.	Notification No. and Date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	113/2003-CUSTOMS, dated the 22 nd July, 2003	<p>In the said notification,-</p> <p>(1) in paragraph 1, for the words “ Foreign Trade Policy” the words , figures and brackets “the Special Economic Zones Act,2005 (28 of 2005) and the Special Economic Zones Rules, 2006” shall be substituted.</p> <p>(2) for the <i>Explanation</i>, the following Explanation shall be substituted, namely:-</p> <p>“<i>Explanation.</i> – For the purpose of this notification ‘Special Economic Zone’ means Special Economic Zone as notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005(28 of 2005).”.</p>
2	45/2005-CUSTOMS, dated the 16 th May,2005	<p>In the said notification,-</p> <p>(i) for the words and figures “ the Foreign Trade Policy 2004-2009”, the words and figures “the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) and the Special Economic Zones Rules, 2006” shall be substituted ;</p> <p>(ii) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely:-</p> <p>“ Provided further that no such exemption shall be applicable to the following goods, namely: -</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Microprocessor for computer, other than mother boards; (b) Floppy disc drive; (c) Hard disc drive; (d) CD-ROM drive; (e) DVD Drive; (f) USB Flash memory; (g) Combo drive (h) Cellular Phones, and (i) Radio trunking terminals.”.

		(iii) in the <i>Explanation</i> , for the words, figures, and bracket “section 76 A of the Customs Act, 1962(52 of 1962)”, the words , figure and bracket “section 4 of the Special Economic Zones Act,2005(28 of 2005)” shall be substituted .
3	20/2006-Customs dated the 1 st March, 2006	In the said notification, in the Table, S.No 7 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 305/2/2007-FTT]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

Note :— 1. Notification No. 113/2003-CUSTOMS, dated the 22nd July, 2003 was published in the Gazette of India vide G.S.R.572 (E), dated the 22nd July, 2003 and was amended by the following notifications-

- (1) No. 129/2003- CUSTOMS, dated the 14th August, 2003 [G.S.R. 669 (E), dated the 14th August, 2003]
- (2) No. 151/2003- Customs, dated the 14th October, 2003 [G.S.R. 813 (E), dated the 14th October, 2003]
- (3) No.169/2003- CUSTOMS, dated the 29th November, 2003 [G.S.R. 916 (E), dated the 29th November, 2003]
- (4) No. 180/2003- CUSTOMS, dated the 31st December, 2003 [G.S.R. 980 (E), dated the 31st December, 2003]
- (5) No. 45 /2004- CUSTOMS, dated the 28th February, 2004 [G.S.R. 164 (E), dated the 28th February, 2004]
- (6) No. 50/2004- CUSTOMS, dated the 31st March, 2004 [G.S.R. 244 (E), dated the 31st March, 2004]
- (7) No. 58/2004- CUSTOMS, dated the 30th April, 2004 [G.S.R. 298 (E), dated the 30th April, 2004]
- (8) No.87/2004-CUSTOMS dated the 6th September, 2004 [G.S.R.566 (E), dated the 6th September, 2004].

2. Notification No. 45/2005-CUSTOMS dated the 16th May, 2005 was published in the Gazette of India vide [G.S.R.318 (E), dated the 16th May, 2005].

566 917-3

3. Notification No. 20/2006-Customs, dated the 1st March, 2006 was published in the Gazette of India vide G.S.R 92 (E), dated the 1st March, 2006 and was amended by the following notifications-

- (1) No24/2006-CUSTOMS, dated the 6th March 2006 [G.S.R.140 (E), dated the 6th March, 2004].
- (2) No29/2006-CUSTOMS, dated the 20th March, 2006 [G.S.R.170 (E), dated the 20th March, 2006]
- (3) No79/2006-CUSTOMS, dated the 8th August, 2006 [G.S.R.467 (E), dated the 8th August, 2006]
- (4) No139/2006-CUSTOMS, dated the 30th December, 2006 [G.S.R.800 (E), dated the 30th December, 2006]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2007

सं. 02/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 99(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 01) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा-3 की उपधारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिसूचनाओं को रद्द करती है, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जो ऐसे विखंडन के पूर्व की गई थी या जिनका किए जाने से लोप किया गया था अर्थात:-

(i) अधिसूचना सं. 58/2003-सीमा शुल्क(गै.टै.) दिनांक दिनांक 22 जुलाई, 2003 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-3 उपखण्ड (i) में सा.का.नि.सं. 575(अ) दिनांक 22 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

(ii) अधिसूचना सं. 146/89-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 19 मई, 1989 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-3 उपखण्ड (i) में सा.का.नि.सं. 559(अ) दिनांक 19 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2007

No. 02/2007-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 99(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the Public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, namely:-

(i) Notification No 58/2003-CENTRAL EXCISE dated the 22nd July, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 575 (E), dated the 22nd July, 2003;

(ii) Notification No 146/89-CENTRAL EXCISE dated 19th May, 1989 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 559(E), dated the 19th May, 1989.

[F. No. 305/2/2007-FTT]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.